

in form of profit and dividends, and the amount of foreign exchange earned by India during this period, year-wise as a result of the operations of these Corporations?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL): (a) As on 31-3-1976 (latest period for which information is available) there were 171 Subsidiaries and 481 Branches of foreign companies operating in India. There is no precise definition of multinational corporation. Hence for the purpose of the question, information is given about foreign companies.

(b) According to the Reserve Bank, the total remittances towards profits and dividends effected by foreign companies during the last three years were as below:

	(Rs. crores)
1973-74	45.57
1974-75	20.63
1975-76	34.42

Information about the foreign exchange earned by these companies during this period is not readily available.

भारत, यूगोस्लाविया और मिश्र के बीच आर्थिक सहयोग के विषय पर बातचीत

775. श्री उग्रसेन : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, यूगोस्लाविया और मिश्र के बीच आर्थिक सहयोग पर त्रिपक्षीय वार्ता का जो सूत्रपात लगभग 10 वर्ष पहले किया गया था वह अब सर्वथा निश्चेष्ट हो गई है और वार्ता को पुनः आरम्भ करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किये जा रहे हैं ;

(ख) क्या इस दिशा में अब तक प्राप्त उपलब्धियों का मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) वार्ता पुनः कब तक आरम्भ की जायेगी ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग). भारत, मिश्र और यूगोस्लाविया के बीच व्यापार विस्तार तथा आर्थिक सहयोग करार पर 23 दिसम्बर, 1967 को हस्ताक्षर हुए थे और यह 1 अप्रैल, 1968 से लागू हुआ था। इस करार का मुख्य उद्देश्य तीनों देशों के बीच निर्दिष्ट माल के आदान-प्रदान के सम्बन्ध में टैरिफ अधिमान प्रदान करना है। इस प्रयोजन के लिये, तीनों देशों ने 134 टैरिफ शीर्षों की साझी सूची बनाई है और जब वे परस्पर इन उत्पादों का व्यापार करते हैं तो परम मित्र राष्ट्र दर का 50 प्रतिशत टैरिफ अधिमान देते हैं। औद्योगिक संयुक्त उद्यमों, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, नौवहन, पर्यटन, वित्त, बैंकिंग तथा बीमा जैसे अन्य विभिन्न क्षेत्र में त्रिपक्षीय कार्यक्रमों को भी इस करार में रखा गया है।

विभिन्न क्षेत्रों में शामिल की गई प्रगति की समीक्षा करने के लिए मंत्रियों तथा इस करार के अन्तर्गत गठित कार्यकारी दल की समय समय पर बैठकें होती हैं। तीनों देशों के मंत्रियों की चौथी बैठक काहिरा में 2 तथा 3 मई, 1976 को हुई थी। मंत्रियों ने टैरिफ अधिमान के प्रभाव का अध्ययन करने के बाद तीनों देशों की बीच व्यापार संबंधन के लिये अनेक उपायों का सुझाव दिया था, जैसे साझी सूची का विस्तार, विद्यमान साझी सूची की मदों पर टैरिफ कटौती बढ़ाना, साझी सूची में मदें जोड़ना और गैर-टैरिफ प्रतिबन्ध हटाना।

व्यापार तथा टैरिफ सम्बन्धी त्रिपक्षीय कार्यकारी दल की दिसम्बर, 1976 में जब बैलग्रेड में बैठक हुई तो उसने इन सिफारिशों का अनुसरण किया। 1976 में काहिरा में हुई

मंत्रिस्तरीय बैठक में संयुक्त उद्यमों के लिये तीन परियोजनाओं अर्थात् ट्रेक्टर, रेल के माल-डिब्बे आदि और इलेक्ट्रानिक उद्योगों को चुना गया। औद्योगिक सहयोग सम्बन्धी भारतीय कार्यकारी दल इन तीन परियोजनाओं के सम्बन्ध में आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही कर रहा है।

तीनों देशों के करार के प्रधान समन्वय-कर्ताओं (सरकार के सचिव स्तर पर) की बैठक का शीघ्र ही नई दिल्ली में आयोजन करने का प्रस्ताव इस समय विचाराधीन है ताकि करार के अन्तर्गत सहयोग के ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिये किये जाने वाले आवश्यक उपायों पर विचार किया जा सके। इससे बाद 1977 के दौरान मंत्रिस्तरीय बैठक होने की संभावना है।

Staff working in Export Inspection Agency

776. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state

(a) whether Export Inspection Agency is treating its staff engaged in inspection work and laboratory work as two different categories and their working conditions and other facilities differ; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI MOHAN DHARIA) (a) and (b). The staff engaged in inspection work and the staff engaged in laboratory are shown separately under the various schemes. Their nature of duties varies from post to post depending upon the responsibilities and functions attached to them. The working hours also vary for the same reasons.

Staff carrying field and tour responsibilities draw travelling allowance and other allowances as may be applicable to their respective posts. The pay and other service conditions of all staff are governed by the sanctions issued by the Export Inspection Council from time to time.

Indian Airlines Flight Connections to Madhya Pradesh

777. SHRI PARDYUMNA K. BAL: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) the basis on which Indian Airlines flight connections have been established recently to four places of Madhya Pradesh inspite of the adverse opinion of the experts submitted in a report earlier; and

(b) the extent of loss of revenue per month to Indian Airlines as a result thereof?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK): (a) In order to provide much needed air connections in Eastern Madhya Pradesh, the route of Indian Airlines daily HS-748 service Delhi-Gwalior-Bhopal-Indore-Bombay and return was re-adjusted by omitting Gwalior and including Jabalpur and Raipur on two days a week.

(b). Since Jabalpur and Raipur were linked only in May, 1977, the financial results are not yet known.

Proposal to repeal Enemy Property Act, 1966

778. SHRI BASHIR AHMAD: Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state whether Government propose to repeal the Enemy Property Act, 1966?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI MOHAN